

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 657]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2021 — पौष 9, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-8/2019/1/एक.— भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012 तथा उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुक्रम में, सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2019 द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है।

अतएव, उक्त के अनुक्रम में, राज्य शासन, एतद्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“उक्त बोर्ड की कालावधि 31 दिसम्बर, 2023 तक होगी।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी.डी. सिंह, सचिव.